

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

हौज खास, नई दिल्ली -110016

(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

Hauz Khas, New Delhi-110016

(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP04339G_SN/ 130628

Advertisement No.: IITD/IRD/050/2023

Dated:06/03/2023

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	Understanding the role of micro RNA mediated regulation of Rab GTPases expression and modulation of phagosome maturation. (RP04339G_SN)	
Funding Agency	Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology, Govt	
Name of the Project Investigator	Prof. Amitabha Mukhopadhyay [email id:amitabha@bioschool.iitd.ac.in]	
Deptt./Centre	School of Biological Sciences	
Duration of the Project	Upto:14/12/2025	
Post (s)	Consolidated Pay-slab / Fellowship	Qualifications
Research Associate (1)	Rs.47,000/-p.m. plus HRA @ 24%	1. Ph.D. or equivalent degree with research experience in life science. 2. Candidate should have at least 3 published papers above impact factor 3. Atleast one paper as first author. 3. Candidate should have 5 years research experience in tissue/cell culture, cloning and expression of proteins, miRNA mediated gene regulation, overexpression of proteins in cells and confocal microscopy. 4. Expertise in confocal microscopy, cloning and expression of proteins and experience in miRNA mediated gene
Jr. Project Attendant (1)	Rs.15,800/-p.m. plus HRA @ 24%	1. Candidate should be at least class 10th pass. 2. Should be able to prepare molecular biology laboratory reagents. 3. Should be able to clean, wash and autoclave of laboratory glass wares and plastic wares. 4. Preparation of buffers and regular media. 5. Cleaning of lab furniture and lab instruments.

The candidates who are interested to apply for the above post should download Form No. IRD/REC-4 from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Amitabha Mukhopadhyay at his email id:amitabha@bioschool.iitd.ac.in

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the online interview details. Only short-listed candidates will be informed for online interview. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact Prof. Amitabha Mukhopadhyay at email id amitabha@bioschool.iitd.ac.in

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा The last date for submitting the completed applications by e-mail is 20/03/2023 by 5.00 p.m.

सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units :
- Webmaster, IRD
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Amitabha Mukhopadhyay, PI, School of Biological Sciences
- Copy to Chairperson, DRC/CRC

It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
To put advertisement at IITD website.